

Psa

Chapter 66

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

1 לְמַנְצֵחַ שִׁיר מְזֻמָּר הָרִיעוּ לְאֱלֹהִים כָּל-הָאָרֶץ:
-प्रधान-संगीतकार-के-लिए गीत भजन जयजयकार-करो -एलोहीम-के-लिए सारी -पृथ्वी H5329 H4210 H7321 H0430 H3605 H0776

हे धरती की हर वस्तु, आनन्द के साथ परमेश्वर की जय बोलो।

2 זָמְרוּ כְבוֹד-שְׁמוֹ שִׁמּוּ כְבוֹד תְּהַלְלוּ:
गाओ महिमा करो महिमा उसकी-नाम-की उसके-नाम-की महिमामय उसकी-स्तुति-को H2167 H3519 H8034 H3519 H8416

उसके माहिमामय नाम की स्तुति करो! उसका आदर उसके स्तुति गीतों से करो!

3 אָמְרוּ לְאֱלֹהִים מַה-נּוֹרָא מַעֲשָׂיָי בְּרָב עָזָי יִכְתְּשׁוּ לִי אֱיָבִי:
कहो -एलोहीम-से कितने भयावह-हैं तेरे-कार्य तेरी-शक्ति-की -बड़ाई-के-कारण तुझ-से तेरे-शत्रु H0559 H0430 H4100 H3372 H4639 H7230 H5797 H3584 H0341

उसके अति अद्भुत कामों से परमेश्वर को बखानों! हे परमेश्वर, तेरी शक्ति बहुत बड़ी है। तेरे शत्रु झुक जाते और वे तुझसे डरते हैं।

4 כָּל-הָאָרֶץ יִשְׁתַּחֲוּוּ לְךָ וְיִזְמְרוּ-לְךָ וְיִזְמְרוּ-לְשֵׁם-יְיָ שֶׁלָּה:
सारी -पृथ्वी दण्डवत-करेगी तुझे और-गाएगी-स्तुति तेरे-लिए वे-गाएंगे-स्तुति तेरे-नाम-की सेला H3605 H0776 H7812 H2167 H8034 H2167 H5542

जगत के सभी लोग तेरी उपासना करें और तेरे नाम का हर कोई गुण गाये।

5 לָכֵן וְרָאוּ מַפְעָלוֹת אֱלֹהִים נִוְרָא עֲלֵיָהּ אָדָם בְּנֵי אֶרֶץ:
आओ और-देखो कार्यों-को एलोहीम-के भयावह-है कार्य-में -की-और आदम-के पुत्रों-के H3212 H7200 H0430 H3372 H5949 H0120

तुम उनको देखो जो आश्चर्यपूर्ण काम परमेश्वर ने किये! वे वस्तुएँ हमको अचरज से भर देती है।

6 הַפֶּתַח וְיָם לִיבְשָׁה בְּנֵהָר יַעֲבְרוּ בְּרִגְלָם שָׁם נִשְׁמַחַהּ בּוֹ:
उसने-पलटा समुद्र-को -सूखी-भूमि-में -नदी-में वे-पार-हुए पैदल वहाँ हम-आनंदित-हुए उस-में H2015 H3220 H3004 H5104 H7272 H8033 H055

परमेश्वर ने धरती सूखी होने को सागर को विवश किया और उसके आनन्दित जन पैदल महानद को पार कर गये।

7 מִשָּׁל מִבְּבוֹרָתוֹ עוֹלָם עֵינָיו בְּנֵי-יָם תַּצְפִּינָה וְהַסּוֹרְרִים אֶל-
शासन-करनेवाला अपनी-सामर्थ्य-से सदा-के-लिए उसकी-आँखें -जातियों-पर निगाह-रखती-हैं -विद्रोही न H4910 H1369 H5769 H0408 H5637 H6822

וְיָרִימוּ (אֶרְוּמוֹ) לְמוֹ סֵלָה:
उठाएं अपने-आप-को-ऊँचा सेला अपने-लिए H5542

परमेश्वर अपनी महाशक्ति से इस संसार का शासन करता है। परमेश्वर हर कहीं लोगों पर दृष्टि रखता है। कोई भी व्यक्ति उसके विरुद्ध नहीं हो सकता।

8 בְּרָכוּ עַמִּים אֱלֹהֵינוּ וְהַשְׁמִיעוּ קוֹל תְּהַלְלוּ:
धन्य-कहो हे-लोगो हमारे-एलोहीम-को और-सुनाओ ध्वनि उसकी-स्तुति-की H1288 H0430 H8085 H8416

लोगों, हमारे परमेश्वर का गुणगान तुम ऊँचे स्वर में करो।

9
 הַשֵּׁם רַחֵם אֶת אֲמָתְךָ וְאֶת אֲמָתְךָ וְאֶת אֲמָתְךָ וְאֶת אֲמָתְךָ
 हमारे-पैरों-को -डगमगाने हीने-देता और-नहीं -जीवितों-में हमारी-आत्मा-को रखनेवाला
[H7272](#) [H4132](#) [H5414](#) [H3808](#) [H5315](#)

परमेश्वर ने हमको यह जीवन दिया है। वह हमारी रक्षा करता है।

10
 כִּי-בְחַנְתָּנוּ אֱלֹהִים צָרַפְתָּנוּ כַּצָּרָה-כֶּסֶף
 तूने-परखा-हमें क्योंकि तूने-ताया-हमें एलोहीम जैसे-तपाई-जाती-है चाँदी
[H3701](#) [H6884](#) [H6884](#) [H0430](#) [H0974](#)

परमेश्वर ने हमारी परीक्षा ली है। परमेश्वर ने हमें वैसे ही परखा, जैसे लोग आग में डालकर चाँदी परखते हैं।

11
 הַבְּאֵתָנוּ בְּמַחְנֵנוּ מוֹעֵקָה שְׂמֵתָהּ בְּמַצִּיבָהּ
 हमारी-कमर-पर क्लेश तूने-रखा -जाल-में तूने-लाया-हमें
[H4975](#) [H4157](#) [H0935](#)

है परमेश्वर, तूने हमें फँदों में फँसने दिया। तूने हम पर भारी बोझ लाद दिया।

12
 הַרְבֵּבָהּ אֲנֹשׁ לְרֹאשָׁנוּ בְּאֵנוּ וּבְמַיִם לְרִוְיָהּ
 तूने-चढ़ाया मनुष्यों-को हमारे-सिर-पर हम-गए -आग-में और-जल-में परंतु-तू-निकाल-लाया-हमें -बहुतायत-में
[H7310](#) [H3318](#) [H4325](#) [H0784](#) [H0935](#) [H0582](#) [H7392](#)

तूने हमें शत्रुओं से पैरों तले दवाया। तूने हमको आग और पानी में से घसीटा। किन्तु तू फिर भी हमें सुरक्षित स्थान पर ले आया।

13
 אֲבוֹא בֵיתָהּ בְּעֹלוֹת אֲשֵׁלֶם לָהּ נְדָרֶיךָ
 मैं-आऊँगा तेरे-घर-में होमबलियों-के-साथ मैं-पूरा-करूँगा मेरी-मन्त्रों-को तुझे
[H5088](#) [H0935](#)

इसलिए मैं तेरे मन्दिर में बलियाँ चढ़ाने लाऊँगा। जब मैं विपति में था, मैंने तेरी शरण माँगी और मैंने तेरी बहुतेरी मन्त्रत मानी। अब उन सब वस्तुओं को जिनकी मैंने मन्त्रत मानी, अर्पित करता हूँ।

14
 אֲשֶׁר-פָּצוּ שְׂפִתָי וְדַבַּר-פִּי בַצָּר-לִי
 जो खोले मेरे-होंठों-ने और-बोला मेरे-मुख-ने मैं-था मैं-संकट-में
[H6310](#) [H1696](#) [H8193](#) [H6475](#)

इसलिए मैं तेरे मन्दिर में बलियाँ चढ़ाने लाऊँगा। जब मैं विपति में था, मैंने तेरी शरण माँगी और मैंने तेरी बहुतेरी मन्त्रत मानी। अब उन सब वस्तुओं को जिनकी मैंने मन्त्रत मानी, अर्पित करता हूँ।

15
 עָלִיתָ עִמָּךְ עִמָּךְ עִמָּךְ עִמָּךְ עִמָּךְ
 होमबलियाँ मोटे-पशुओं-की मैं-चढ़ाऊँगा साथ-साथ साथ-साथ साथ-साथ
[H6260](#) [H1241](#) [H7004](#) [H5927](#) [H4220](#)

סֵלָה:
 सेला
[H5542](#)

तुझको पापबलि अर्पित कर रहा हूँ, और मेढ़ों के साथ सुगन्ध अर्पित करता हूँ। तुझको बैलों और बकरों की बलि अर्पित करता हूँ।

16
 לָבוֹא-שָׁמְעוּ וְאֶסְפְּרָה כָּל-יְרֵאֵי אֱלֹהִים אֲשֶׁר עָשָׂה לְנַפְשִׁי
 आओ सुनो और-मैं-बताऊँगा सब एलोहीम-से-डरनेवालो एलोहीम मेरी-आत्मा-के-लिए उसने-किया-है जो
[H5315](#) [H0430](#) [H3373](#) [H3605](#) [H8085](#) [H3212](#)

ओ सभी लोगों, परमेश्वर के आराधकों। आओ, मैं तुम्हें बताऊँगा कि परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया है।

17
 אֲלֵיוֹ פִי-קָרָאתִי וְיָדָתָהּ וְיָרַח אֶת-פִּי
 उसकी-ओर मेरे-मुख-से मैंने-पुकारा और-वह-ऊँचा-किया-गया मेरी-जीभ-के-द्वारा
[H3956](#) [H8478](#) [H7318](#) [H7121](#) [H6310](#) [H0413](#)

मैंने उसकी विनती की। मैंने उसका गुणगान किया। मेरा मन पवित्र था, मेरे स्वामी ने मेरी बात सुनी।

אָדוֹנָי:	אִשְׁמַע	לֹא	בְּלִבִּי	רָאִיתִי	אִם	אֲוֹן	18
आदोनाई	सुनता	नहीं	मेरे-हृदय-में	मैंने-देखा-होता	यदि	अधर्म	
H0136	H8085	H3808		H7200		H0205	

मैंने उसकी विनती की। मैंने उसका गुणगान किया। मेरा मन पवित्र था, मेरे स्वामी ने मेरी बात सुनी।

תְּפִלָּתי:	בְּקוֹל	הַקְּשִׁיב	אֱלֹהִים	שָׁמַע	אֲכֹן	19
मेरी-प्रार्थना-की	-ध्वनि-पर	उसने-ध्यान-दिया-है	एलोहीम-ने	सुना-है	परंतु-निश्चय	
H8605		H7181	H0430	H8085	H0403	

परमेश्वर ने मेरी सुनी। परमेश्वर ने मेरी विनती सुन ली।

מִאֲתֵי:	וְחִסְדֵּי	תְּפִלָּתי	הִטִּיר	לֹא	אֲשַׁר	אֱלֹהִים	בְּרוּךְ	20
मुझ-से	और-न-अपनी-कृपा-को	मेरी-प्रार्थना-को	हटाई	नहीं	जिसने	एलोहीम	धन्य-हो	
H0854		H8605	H5493	H3808		H0430	H1288	

परमेश्वर के गुण गाओ। परमेश्वर ने मुझसे मुँह नहीं मोड़ा। उसने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। परमेश्वर ने निज करूणा मुझपर दर्शायी।